



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिएट प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941–सितम्बर 17, 2019
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941–September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8744 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Khetri has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Khetri. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगर पालिका खेतडी, झुन्झुनूं
प्रोफार्म-क

वार्ड नं	नया वार्ड	वार्ड सीमा विवरण
वार्ड 20 का भाग	01	काली माई मंदिर के पास से स्टेट हाईवे 13 सड़क पर पूर्व की तरफ चलते हुये चिडावा रोड पर चलते हुये विश्वनाथ एडवोकेट के मकान, जोधपुर मिठान भण्डार को बांये शामिल करते हुये नगर पालिका प्रवेश दार तक वहां से नदी में बल्ला की बावड़ी को शामिल करते हुये पश्चिम में नदी नदी चलकर न्यायालय भवन को छोड़कर नदी के पूर्वी और की समस्त आबादी शामिल कर आगे चलकर ओमप्रकाश नारनौल की दुकान छोड़कर कोलिहान नगर के पुराने लोहे के गेट से पार कर पश्चिम में पहाड़ के सहारे सहारे नगर पालिका सीमा में चलकर मालीराम, पालाराम के मकानात व खेत को शामिल कर पहाड़ी पहाड़ी पालिका की सीमा रेखा के साथ चलकर ताराचंद शास्त्री के खेत को दाहिने छोड़कर यहां से दक्षिण में चलते हुये कोलिहान माईन्स की सड़क पार कर रामेश्वर कुम्हार की दुकान तक वहां से पूर्व में चलकर टीका की ढाणी के रास्ते चलकर पुलिया पार कर

		रास्ते रास्ते धीसाराम ओडिना, जगमाल जलन्द्रा के मकान तथा मधु बाड़ी को दाहिने छोड़कर पुलिया होते हुये सड़क सड़क काली माई मंदिर तिहारे तक। बांये तरफ की समस्त आबादी
वार्ड नं 19 व 01 का भाग	02	काली माई मंदिर के चौक से मधु बाड़ी बाये लेते हुये उत्तर दिशा की तरफ जगदीश सैनी के मकान व दुकानों को बांए शामिल कर पुलिया से होकर ढाणी में जगमाल जलन्द्रा के मकान को बांये शामिल कर बलदेव कुम्हार के मकान को दाहिने छोड़कर धीसालाल ओडिना व सरदाराराम सैनी के मकान को शामिल कर रास्ते रास्ते पुलिया से होकर कोलिहान माईनिंग की सड़क से मिलकर कोलिहान माईन्स सड़क सड़क पश्चिम में चलकर राजसिंह, बजरंग, नानुराम के मकानों को शामिल कर दक्षिण दिशा में चलकर सुलतान के खेत को बांए लेते हुए ताराचंद सैनी के मकानों को दांए छोड़कर सड़क सड़क चलकर रतन की दुकान को बांए शामिल कर रघुनाथ धोबी को बांए शामिल कर स्टेट हाईवे 13 तक, वहां से दक्षिण दिशा में सड़क सड़क चलकर कानाराम फार्म हाउस को बांए शामिल कर पलटन वाला कुआ को बांए लेते हुए, रघुवीर की दुकान को दांए छोड़कर वहां से पूर्व दिशा में मुड़कर रास्ते रास्ते चलकर जयनिवास कोठी को बांए लेते हुए व धमेन्द्र तोमर के मकान को दांए छोड़कर उत्तर दिशा में सड़क सड़क चलकर काली माई मंदिर तक। बांए तरफ की समस्त आबादी
वार्ड नं 01 का भाग	03	ग्राम बीलवा के रास्ते पर नगर पालिका की सीमा रेखा से शुरू होकर चांदमारी को बांए शामिल करते हुये चांदमारी माईन्स को दाहिने छोड़ते हुये कब्रिस्तान को बांए शामिल कर पूर्व में चांदमारी सड़क सड़क चलकर सीधे पंचायत समिति दरवाजे के पास श्योपाल सैनी की दुकान को शामिल करते हुये उत्तर दिशा में मुड़कर पोलो ग्राउण्ड को दांया छोड़ते हुये सीधे नदी नदी चलकर जयदयाल खटीक के मकान व खेत तक। जयदयाल खटीक के खेत को बांये शामिल करते हुये पश्चिम में मुड़कर खटीकान के समस्त मकान शामिल करते हुये नगर पालिका सीमा रेखा तक, वहां से दक्षिण दिशा में नगर पालिका सीमा रेखा के सहारे सहारे चलकर ग्राम बीलवा के रास्ते पर। बांए तरफ की समस्त आबादी
वार्ड नं 02 का भाग	04	पश्चिम में नगर पालिका सीमा से पूर्व में चलकर तालाब के डंडे के सहारे सहारे चलकर चिरंजीलाल जांगिड के मकान को बांए शामिल करते हुये तालाब की दरीची से लेकर उत्तर में कवी के मकान तक

		वहां से उत्तर दिशा में चलते हुये सदीक चक्की वाला व कमेले को दांये छोड़ते हुये उत्तर में सीधे रास्ते रास्ते कब्रिस्तान को बांए लेते हुये तथा बागर को दांये छोड़ते हुये फारूक खां के भट्टे तक वहां से पूर्व की ओर नदी नदी समाज कल्याण छात्रावास को बांए लेते हुये पश्चिम में चांदकारी सड़क सड़क चलकर चांदमारी माईन्स को बांए शामिल कर पश्चिम में माईन्स कार्यालय को दाहिने छोड़ते हुये बांए तरफ की समस्त आबादी को शामिल करते हुये दक्षिण में चलकर उपरोक्त नगर पालिका सीमा रेखा तक। बांए तरफ की समस्त आबादी
वार्ड नं 03 का भाग	05	चांदमारी रोड पर रणजीत सैनी के मकान को शामिल कर वहां से पूर्व की तरफ सड़क सड़क चलकर खेमचंद सैनी के मकान तक वहां से पश्चिम में दाहिने और की समस्त आबादी लेते हुये सड़क सड़क मुहाफिस खाना तक वहां से सेहूराम सैनी के मकान को बांए छोड़ते हुये तथा राजोरिया भवन को दांए और लेते हुये सीमेन्टेड सड़क सड़क दांए और की समस्त आबादी मूलचंद, शेरसिंह, झाबरमल, औकारमल, मुरलीधर आदि सैनियान के मकानों को शामिल करते हुये रास्ते में मिलकर दुर्गा प्रसाद नायक के मकान तक वहां से दक्षिण में सीमेन्टेड सड़क सड़क चलकर इस्लामिया स्कूल को बांए छोड़ते हुये दाहिने और की समस्त आबादी लेते हुये, बागर को दाहिने और शामिल करते हुये फारूक खां के भट्टे व समाज कल्याण विभाग छात्रावास को बांए और छोड़ते हुये पूर्व में नदी नदी व सड़क सड़क उपरोक्त रणजीत सैनी के मकान तक। दाहिने और की समस्त आबादी
वार्ड नं 04 का भाग	06	रामायण सत्संग मंदिर से शुरू होकर पूर्व चलकर जसरापुरिया दरवाजा तक। वहां से उत्तर दिशा में दरवाजा भीतर चलकर सीधे सड़क सड़क हनुमान गढ़ी सोहनलाल सैनी के मकान को शामिल कर श्री सेहूराम सैनी के मकान को बांया लेकर तथा राजोरिया भवन को दाहिने छोड़कर गली गली पश्चिम में सीधे चलकर सुरजमल, लुणकरण, मोती, हनुमान प्रसाद, मूलचंद सैनी आदि सैनीयान के मकान बांए शामिल करते हुये गोपीचंद नायक के मकान तक। वहां दक्षिण दिशा में सीधे रास्ते रास्ते चलकर मदरसा तक वहां से दक्षिण में सीधे चलकर तोपखाना की समस्त आबादी को बांए और लेते हुये मस्जिद व्यापरियान तक मस्जिद व्यापरियान को बांए शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में सीधे दक्षिण दिशा में चलते हुये श्री

		रामायण सत्संग मंदिर तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 05 का भाग	07	प्रहलाद परीवाला के मकान से शुरू होकर उत्तर दिशा की तरफ सड़क सड़क चलते हुये कासम अली के मकान तक कासम अली के मकान को बांए शामिल करते हुये उत्तर दिशा में सीधे चलते हुये मदरसा को दांए छोड़ते हुये पश्चिम दिशा में मुड़कर शनि के मकान तक वहां से दक्षिण दिशा की तरफ चलकर आरीफ के मकान व कमेले को बांए शामिल करते हुये सदीक चकी वाला के मकान तक। वहां से दक्षिण दिशा में चलकर कवी के मकान तक, कवी के मकान से पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर सड़क सड़क चलकर प्रहलाद परीवाला के मकान तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 06 का भाग	08	हनुमान सोनी के मकान से शुरू होकर सीधे सड़क सड़क पूर्व दिशा में चलकर बुदराम गुप्ता के मकान को बांए शामिल करते हुये छिपियों के मकान को बांए लेते हुये उत्तर दिशा की तरफ चलकर पंसारी क्लोथ स्टोर को दांए छोड़कर पूर्व दिशा की तरफ चलकर ओमप्रकाश सेन के मकान तक वहां से उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर जगदीश आचार वाला के मकान तक। वहां से पश्चिम दिशा में सड़क सड़क चलकर गिन्नीलाल हलवाई की दुकान को बांए शामिल करते हुये, रामायण सत्संग मंदिर व प्रहलाद परीवाला के मकान को दांए छोड़ते हुये चांदमारी रास्ते पर पश्चिम की तरफ चलते हुये रामजीलाल इन्दा के मकान को शामिल कर तालाब की दरिची होते हुये चिरंजीलाल के मकान को दांए छोड़ते हुये तालाब के डंडे के सहारे सहारे मखनदास आश्रम को शामिल कर पश्चिम में नगर पालिका सीमा तक। वहां से दक्षिण दिशा में घुमकर पूर्व की तरफ मुड़कर हनुमान सोनी के मकान तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 07, 08 व 10 का भाग	09	कोतवाली दरवाजा से शुरू कर दक्षिण दिशा की तरफ चलकर अंधर मंदिर को बांए शामिल करते हुये कयुमुदीन के मकान तक वहां से पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर आत्माराम शर्मा के मकान तक। वहां से उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर भुपेन्द्र शर्मा के मकान तक। वहां से पूर्व दिशा में मुड़कर महादेव चौधरी की हवेली को दांए शामिल करते हुये उपर चढ़ाई चढ़कर विश्वनाथ शर्मा के मकान को बांए शामिल करते हुये पूर्व दिशा में सड़क सड़क चलकर शिव मंदिर व बुर्जा को बांए शामिल करते हुये उत्तर दिशा की तरफ चलकर हनुमान चक्की वाला तक वहां से पश्चिम दिशा में सड़क सड़क चलकर पंसारी क्लोथ स्टोर को बांए शामिल करते हुये पश्चिम दिशा में चलकर श्याम

		मिष्ठान भण्डार को बांए शामिल कर बुदराम कुमावत के मकान को दांए छोड़ते हुये समस्त पारीकान के मकानों को बांए शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में चलकर सीधे महावीर कुमावत के मकान तक महावीर कुमावत के मकान को बांए शामिल करते हुये पूर्व दिशा की तरफ नीचे उत्तर कर कैलाश स्वामी के मकान को दांए छोड़ते हुये सड़क सड़क उत्तर दिशा की तरफ चलकर फतेहचन्द के मकान व कोतवाली दरवाजा तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 07 का भाग	10	भोपालगढ़ खुर्रे खुर्रे नीचे चलकर लुणा नायक, गिरधारी, पप्पू नायक व धन्ना नायक को बांए शामिल करते हुये सत्यनारायण शाह व सुरेश चंद सोनी के मकानों को बांए शामिल लेकर उत्तर दिशा में चलकर कैलाश स्वामी के मकान तक, कैलाश स्वामी के मकान को बांए शामिल करते हुये पश्चिम दिशा में उपर चढ़कर महावीर कुमावत के मकान को दांए छोड़ते हुये नीचे पश्चिम में उत्तर कर सड़क सड़क उत्तर दिशा की तरफ चलकर जगदीश मित्तल के मकान को बांए शामिल कर आगे सड़क सड़क पश्चिम में मुड़कर सीधे सड़क सड़क चलकर श्री ताराचंद शास्त्री व रामौतार मेहरडा के मकानों को बांए शामिल लेते हुये पानी की टंकी व आस पास के मकानों को बांए शामिल लेते हुये नगर पालिका सीमा तक। वहां से दक्षिण की तरफ नगर पालिका सीमा रेखा के साथ साथ चलकर भोपालगढ़ को दाहिने छोड़कर गढ़ के उत्तरी परकोटे के बाहर पूर्व में चलकर गढ़ के खुर्रे तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 08 का भाग	11	चांद बागौर वाले के मकान से शुरू करके पश्चिम दिशा में चलकर टासफार्मर के पास सुनारो की दुकानों को बांए शामिल लेते हुये दक्षिण दिशा की तरफ रास्ते रास्ते चलकर भोपालगढ़ के खुर्रे खुर्रे चलकर सुरेश सोनी व सत्यनारायण शाह के मकान को दाहिने छोड़कर देवकी पुरोहित को बांए शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में चलकर मनमोहन शाह, रघुनन्दन की हवेली को बांए शामिल करते हुये पश्चिम दिशा में चलकर लुणा नायक, धन्ना, पप्पू नायक, गिरधारी नायक के मकान को दांए छोड़ते हुये मनमोहन शाह की हवेली के पिछे से चलकर भोपालगढ़ के उत्तरी परकोटे के बाहर से चलकर भोपालगढ़ की समस्त आबादी एवं सती मंदिर को शामिल कर पालिका सीमा रेखा के साथ साथ चलते हुये पूर्व में बागौर के रास्ते तक वहां से उत्तर की तरफ नीचे उत्तरते हुये बांए तरफ की समस्त आबादी लेते हुये, महेन्द्र नायक, मनोहर मास्टर व मंदिर

		दर्जीयान को दाहिने छोड़ते हुये गोविन्दराम पुरोहित के मकान को बांए और शामिल कर उत्तर में नले नले चलकर धन्ना धाबाई, वासुदेव तिवाडी आदि के मकानात को शामिल कर उत्तर में सीधे चांद बागौर वाले के मकान तक। बांए और की समस्त आबादी।
वार्ड नं 09 का भाग	12	किरोड़ीमल, फुलचंद काकंरिया के मकान से शुरू होकर दक्षिण में रास्ते रास्ते चलकर धाबाईजी की हवेली व वासुदेव तिवाडी की हवेली को दाहिने छोड़ते हुये नले में जसरापुरिया की हवेली को बांए शामिल कर नले नले सीधे मंदिर दर्जीयान वहां से पूर्व दिशा की तरफ सड़क सड़क चलकर मनोहर मास्टर व महेन्द्र नायक के मकान को बांए शामिल लेते हुये बागौर के पहाड़ी रास्ते रास्ते दक्षिण की ओर नगर पालिका की सीमा रेखा तक यहां से पूर्व में पालिका सीमा रेखा के साथ साथ चलकर साई बाबा मंदिर तक यहां से सीधे उत्तर की तरफ पानी की टंकी को बांए शामिल लेते हुये पहाड़ी आबादी व राजेन्द्र घड़ीसाज को दाहिना छोड़कर मोहन नाई के मकान को बांया शामिल करते हुये धुवालियां की हवेली को बांया शामिल करते हुये शीतला माता शंकर बोहरा के मकान को दाहिने छोड़कर गली में होकर मुलचंद कुम्हार के मकान को बांया शामिल कर पश्चिम में रास्ते रास्ते चलकर उपरोक्त मकान किरोड़ीचंद, फुलचंद काकंरिया के मकान तक। बांए तरफ की समस्त आबादी
वार्ड नं 10 का भाग	13	दुर्गा प्रसाद डुमोलिया के मकान से शुरू कर पूर्व में रास्ते रास्ते चलकर मुलचंद कुम्हार के मकान को दाहिने छोड़ते हुये गली से निकलकर शीतला माता व शंकर बोहरा के मकान को शामिल कर धुवालियों की हवेली को दाहिना छोड़कर राधेश्याम शर्मा के मकान को शामिल कर उपर पहाड़ी पर चढ़कर राजेन्द्र घड़ीसाज व पहाड़ी की समस्त आबादी को शामिल कर नीचे बागोर के रास्ते पानी की टंकी को दांए छोड़कर वहां से पूर्व में रास्ते रास्ते चलकर मुख्यमंत्री जन आवास योजना व भोपा कॉलोनी को दाहिना छोड़कर उत्तर की तरफ चलकर रामेश्वर हरीजन को बांया शामिल कर पश्चिम दिशा में चलकर रामजीलाल, मातादीन बबेरवाल को दाहिना छोड़कर फैजुखां के पुराने मकान को शामिल कर पश्चिम दिशा में सड़क सड़क चलकर मोतीलाल माथूर के मकान तक वहां से दक्षिण दिशा में मुड़कर सड़क सड़क चलते हुये बुर्जा व विश्वनाथ शर्मा के मकान को दांए छोड़ते हुये पश्चिम दिशा में नीचे उतर कर महादेव चौधरी की हवेली को दांए छोड़ते हुये दक्षिण दिशा में चलकर दुर्गा प्रसाद डुमोलिया के

		मकान तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 11 का भाग	14	राजूमल सिंधी के मकान को बांए लेते हुये दक्षिण दिशा में चलकर मातादीन बबरवाल के मकान तक वहां से महावीर जैदिया के मकान को बांया लेते हुये पूर्व दिशा में चलकर जगदीश जैदिया के मकान को बांया लेते हुये दक्षिण दिशा में पहाड़ी पर चलकर भोपालगढ़ सड़क पर पहुंच कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना कॉलोनी को शामिल करते हुये नगर पालिका सीमा रेखा तक वहां से पूर्व की तरफ चलकर सोभजी बंधे को दांये छोड़कर उत्तर दिशा की तरफ चलकर नागाजी मंदिर तक वहां से सड़क सड़क पश्चिम दिशा में चलकर नगर पालिका गेट को बांए लेते हुये चुणा चौक होते हुये श्याम मंदिर को बांए लेकर शिव मंदिर को दांए छोड़कर राजूमल सिंधी के मकान तक। बांये तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 11 व 12 का भाग	15	नागाजी के मंदिर से पूर्व दिशा की तरफ सड़क सड़क चलकर गुलाब चंद कुमावत के खेत व मकानों को दांए शामिल करते हुये पूर्व दिशा में नगर पालिका सीमा रेखा तक वहां से नगर पालिका सीमा रेखा के सहारे सहारे दक्षिण दिशा में चलकर सम्पूर्ण गणेश कॉलोनी को दांये शामिल करते हुये नगर पालिका सीमा रेखा में चलकर नगर पालिका प्रवेश दार तक वहां से पश्चिम दिशा में नगर पालिका सीमा रेखा में चलते हुये लूणा की ढाणी की सम्पूर्ण आबादी को दांए शामिल करते हुये नगर पालिका सीमा रेखा के सहारे सहारे होकर नागामी के मंदिर तक। दांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 12 का भाग	16	अजीत अस्पताल के पास स्वागत दार से शुरू होकर दक्षिण में नीमकाथाना सड़क सड़क चलकर अरावली वन कार्यालय निवास को बांए लेते हुये गुलाब चंद कुमावत के खेत तक। वहां से गुलाब चंद कुमावत के खेत को व मकानों को दाहिने छोड़ते हुये पूर्व दिशा में चलकर नगर पालिका सीमा रेखा तक। वहां से सीमा रेखा के साथ साथ चलकर तिहाड़ा के रास्ते होते हुये उत्तर पश्चिम में चलकर तीजो वाला बंधे की ओगाल के रास्ते रास्ते चलकर रामनारायण की बेरी को बांए शामिल कर हनुमान सैनी के मकानों को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर किशोरीलाल सैनी के मकान व राजकीय अजीत अस्पताल को बांए शामिल करते हुये स्वागत दार तक। बांए तरफ की समस्त आबादी
वार्ड नं 13 का	17	स्वागत दार से शुरू होकर पूर्व में अजीत अस्पताल को दांए छोड़कर किशोरीलाल सैनी के मकानों, हनुमान आडती व नायकों की कुई को

भाग		<p>दांए छोड़ते हुये सुरेश शर्मा, राकेश स्वामी के मकानों को शामिल करते हुये उत्तर दिशा में चलकर नौरंग के मकानों दांये छोड़ते हुये मालजी भक्त की चक्की को बांये शामिल करते हुये रास्ते रास्ते चलकर स्टेट हाईवे 13 पर पहुंच कर उत्तर दिशा में नीमकाथाना मुख्य सड़क को पार करके कानोड़िया फैक्ट्री को बांए शामिल कर मौल्याणी कुई को दाहिने छोड़कर रामेश्वर, जगदीश प्रसाद जांगिड के मकानों को शामिल कर नाईयों के मंदिर को बांयी और शामिल कर बांए और की समस्त आबादी को शामिल करते हुए सड़क सड़क दक्षिण में शनि मंदिर तक वहां से पूर्व में सड़क सड़क चलकर बांए और की आबादी को शामिल करते हुए उपरोक्त प्रवेश दार तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।</p>
वार्ड नं 14 का भाग	18	<p>श्री सत्यनारायण सोनी के मकानों से पूर्व की तरफ चलकर फैजूखां के मकान तक। वहां से फैजू खां के मकान को बांए शामिल करते हुये उत्तर दिशा में रास्ते रास्ते चलकर प्रभुदयाल गुप्ता के व गोकुलचन्द पाण्डे के मकानों को शामिल करते हुए श्री मोहनलाल पारीक, कन्हैयालाल तिवाड़ी के मकान को दाहिना छोड़ते हुए दरीची हरिसिंह जी के मंदिर से निकलकर पारीक कटला को दाहिने छोड़कर पश्चिम में सड़क सड़क श्री गोपीराम नाई की दुकान को बांए शामिल कर बेबी सेन्टर की गली से चलकर दक्षिण में सीधे सत्यनारायण सोनी के मकान तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।</p>
वार्ड नं 15 का भाग	19	<p>जसरापुरिया दरवाजे से पूर्व दिशा की तरफ सिनेमा रोड पर चलकर बाड़ीवाला मौहल्ला की तरफ चलकर कैलाश पारीक के मकान को दाहिने छोड़ते हुए हरिसिंह जी के मंदिर को बांए शामिल करते हुए अनील तिवाड़ी के मकान तक। वहां से पूर्व दिशा की तरफ चलकर नवलकिशोर मास्टर बद्रीप्रसाद जांगिड के मकानों को तथा जोगियो के मंदिर को बांए शामिल करते हुये पूर्व दिशा में सीधे नीचे उत्तर कर एसडीएम कार्यालय व न्यायाधिक भवन को बांए शामिल कर उत्तर दिशा में सड़क सड़क चलकर राजकीय महाविधालय को दांए छोड़कर पश्चिम दिशा में चलकर रामविलास के मकान को बांए शामिल करते हुये बाड़ीवाला मौहल्ला बांए शामिल कर उत्तर दिशा में चलकर जयसिंह विधालय को दांए छोड़कर रघुवीर वकील के मकान को बांए शामिल कर पश्चिम दिशा में चलकर पशु अस्पताल को दांए छोड़कर हासम अली डीलर की दुकान को बांए शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में सड़क सड़क सीधे जसरापुरिया दरवाजे तक। बांए तरफ की समस्त</p>

		आबादी।
वार्ड नं 16 का भाग	20	पंचायत समिति दरवाजा पुलिया से शुरू होकर पश्चिम दिशा में सड़क सड़क चलकर आरएसईबी कार्यालय को बांए शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में चलकर बहलीम बेलिंग की दुकान को बांए लेते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय को बांए शामिल कर श्री रघुवीर एडवोकेट के मकान को दाहिना छोड़कर सड़क सड़क चलकर लक्ष्मीशाह अस्पताल को बांए शामिल कर श्री गंगाजी मंदिर को दाहिना छोड़कर दक्षिण में चलकर कॉलेज ग्राउण्ड के डण्डे के साथ साथ चलकर मनभर जमादार के मकान व प्रभुदयाल जांगिड के क्वाटर को शामिल कर उपखण्ड कार्यालय व तहसील कार्यालय को दाहिना छोड़कर नीमकाथाना सड़क से मिलकर पूर्व में रतनलाल सैनी अध्यापक के मकान को बांए शामिल कर सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय व रामराया कुआं को बांए शामिल कर कुई तेलीयान को बांए शामिल कर उत्तर पूर्व में चलकर आईटीआई शामिल कर चिडावा मुख्य सड़क से मिलकर दक्षिण में खेल मैदान के डंडे के सहारे सहारे सड़क बस स्टेप्ड तिराहे होकर पंचायत समिति दरवाजे से निकलकर अमरसिंह के मकान को शामिल कर उपरोक्त पुलिया तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 16 व 17 का भाग	21	वेणीशंकर की दुकान से शुरू होकर पूर्व दिशा में चलकर लक्ष्मण सैनी, बाबुलाल कुमावत के मकानों को दांए लेते हुये नागरमल पटवारी व राजू, रतनलाल मास्टर को बांए छोड़ते हुए दक्षिण दिशा में घुमकर कोठी क्षेत्र, कच्चे शमशानों, देवीलाल सैनी व गुडगांवा वाली माता के मंदिर को दांए शामिल करते हुए मुरलीधर सैनी के मकानों को दांए लेते हुए तीजो वाला बांध को बांए छोड़कर अठूका की बगीची को दांए शामिल कर वहां से पश्चिम में चलकर हनुमान सैनी के मकानों को बांए छोड़ते हुए नायकों की कुई को दांए शामिल कर उत्तर दिशा में रास्ते रास्ते चलकर डीएसपी कार्यालय व पुलिस थाना को दांए शामिल कर मुख्य सड़क तक। वहां से सड़क सड़क उत्तर दिशा में चलकर उपखण्ड कार्यालय व तहसील कार्यालय को बांए छोड़कर सीपी शर्मा व भाताराम के मकानों को दांए शामिल कर वेणीशंकर की दुकान तक। दांये तरफ की समस्त आबादी
वार्ड नं 17 का भाग	22	तिहाडा के रास्ते देवीलाल सैनी आदि के मकानों को दांए छोड़कर नगर पालिका सीमा रेखा तक वहां से उत्तर दिशा में चलकर माजी साहब के बाग की समस्त आबादी शामिल कर पश्चिम में मुड़कर

		बाग के परकोटे के सहारे सहारे चलकर प्राईमरी स्कूल को दांए छोड़कर पश्चिम दिशा में थोड़ा चलकर दक्षिण दिशा में नदी नदी चलकर वेणी शंकर व शिव मंदिर को बांए शामिल करते हुये पूर्व दिशा में चलकर नदी नदी होते हुए तिहाड़ा के रास्ते पर। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 18 का भाग	23	माजी साहब के बाग की प्राईमरी स्कूल से होकर पूर्व में बाग के परकोटे के सहारे सहारे चलकर दाहिने तरफ माजी साहब की समस्त आबादी को छोड़ते हुये नगर पालिका सीमा रेखा से मिलकर उत्तर में चलकर प्रहलाद के मकान को बांए लेकर चेलापुरी की समस्त आबादी शामिल कर उत्तर में चलकर नगर पालिका सीमा रेखा के साथ चलकर बंशी चार्ज मैन, रामौतार मास्टर के मकान को दाहिने छोड़ते हुये श्मशान घाट के रास्ते रास्ते पश्चिम में मनीराम, गुरुदयाल कुमावत के मकानात तथा जलदाय विभाग के वाटर टैंक को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में चलकर काला पहाड़ को शामिल कर मालियाँ के मकानों को दाहिने छोड़ते हुये धुब वाला बंधे को बांया शामिल करते हुये चेलापुरी में से होकर आईटीआई, बादल सिंह व जलदाय विभाग कार्यालय को दाहिने छोड़ते हुये दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय को दाहिने छोड़कर रतनलाल सैनी अध्यापक को दाहिने छोड़ते हुये माजी साहब के बाग की प्राईमरी स्कूल तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 18 व 19 का भाग	24	काली माई मंदिर से शुरू होकर काली माई मंदिर को दांए छोड़कर दक्षिण दिशा में सड़क सड़क चलते हुये बांए तरफ की आबादी शामिल कर जयनिवास कोठी को दांए छोड़कर धमेन्द्र तोमर के मकानों को बांए शामिल कर जयनिवास कोठी के पास से होते हुए नीचे पश्चिम में उत्तर कर रघुवीर सैनी की दुकान को बांए शामिल कर पलटन के कुए को दांए छोड़कर उत्तर दिशा की तरफ सड़क सड़क चल कर पुल पार कर मनोहर लाल सैनी को बांए शामिल कर रघुनाथ धोबी को दांए छोड़कर उत्तर दिशा में उपर की तरफ चलकर रतन की दुकान को दांए छोड़ते हुए उत्तर पश्चिम में चलकर ताराचंद सैनी के मकानों को बांए शामिल कर नगर पालिका के मैरिज हॉल को बांए शामिल कर तथा नानू सैनी के मकानों को दांए छोड़ते हुये कोलिहान माईन्स रोड कर पश्चिम में चलकर सीआईएसएफ क्वाटरों को बांए शामिल कर उत्तर दिशा में नगर पालिका सीमा रेखा तक वहां से ताराचंद शास्त्री के खेत को बांऐ शामिल करते हुये पश्चिम में

		नगर पालिका सीमा तक यहां से दक्षिण की और नगर पालिका की सीमा के साथ साथ चलकर पूर्व दिशा की और मुड़कर खटीकों के मकानों को दायां छोड़ते हुये सीधे चलकर जयदयाल खटीक के मकान व खेत को दायां छोड़ते हुये नदी नदी चलते हुये पोलो ग्राउण्ड तक वहां से अशोक जांगिड की दुकान को शामिल करते हुये पूर्व दिशा में चलकर बस डिपो व रामकर्ण मिशन को दांये छोड़ते हुये उत्तर दिशा में चलकर महावीर सैनी के वर्कशाफ को दांए छोड़ते हुये आईटीआई सड़क पर पूर्व की तरफ चलकर आईटीआई को दांए छोड़ते हुये जलदाय विभाग कार्यालय को बांए शामिल करते हुये उत्तर दिशा की तरफ नीचे चल कर बादल सिंह के मकान को बांए शमिल कर चेलापुरी चौक तक। वहां से उत्तर दिशा की तरफ बंधे के रास्ते चलते हुए दुब वाले बंधे तक। बंधे को दांए छोड़कर बांए तरफ की आबादी शामिल करते हुए काला पहाड़ के पास समस्त मालियों के मकानों को शामिल करते हुये वाटर वर्क्स टैंक को दांए छोड़ते हुये पश्चिम दिशा में मुड़कर सड़क सड़क चलते हुये काली माई मंदिर चौक तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।
वार्ड नं 20 का भाग	25	काली माई मंदिर चौक से शुरू होकर पूर्व दिशा की तरफ चलकर वाटर टैंक का दाहिने छोड़ते हुये श्मशान घाट के रास्ते रास्ते चलकर मनीराम, गुरुदयाल कुमावत के मकानात को दाहिने छोड़ते हुये शेष खेजड़ा की ढाणी की समस्त आबादी को शामिल करते हुये पूर्व में बंशीधर चार्जमैन के मकान को बांए और शामिल कर नगर पालिका सीमा रेखा से मिलकर उत्तर में पालिका की सीमा रेखा के सहारे सहारे चलकर बांए और की समस्त आबादी को शामिल कर नगर पालिका स्वागत दार तक। वहां से वापिस दक्षिण दिशा की तरफ मुड़कर बांए तरफ सड़क सड़क चलते हुये रामसिंह यादव के मकान को बांए शामिल करते हुये वहां सड़क सड़क काली माई मंदिर चौक तक। बांए तरफ की समस्त आबादी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका खेतड़ी

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।